



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

4 श्रावण 1934 (श०)  
(सं० पटना 362) पटना, बृहस्पतिवार, 26 जुलाई 2012

---

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

-----  
अधिसूचना

25 जुलाई 2012

सं० नि०प्रा०/नि० 1-02/2011-खंड/9199—चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा-14(क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 1273, दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निर्बंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

और, चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा आदापुर प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

और, चूँकि प्रत्येक मत्स्यजीवी सहयोग समिति में 1 (एक) अध्यक्ष, 1 (एक) मंत्री/ कोषाध्यक्ष तथा प्रबंधकारिणी समिति के 11 (ग्यारह) सदस्यों का निर्वाचन कराया जाना है,

अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा-14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा परिशिष्ट-1 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार आदापुर प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष, मंत्री/ कोषाध्यक्ष एवं प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य के निर्वाचन हेतु, सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 18.08.2012 (शनिवार) की तिथि नियत करता है तथा संबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन अपने-अपने मत्स्यजीवी सहयोग समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें।

संबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 26.07.2012 (गुरुवार) को संलग्न प्रपत्र-1 (परिशिष्ट-2) में सूचना निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

मतदान का समय सुबह 7.00 बजे से शाम 3.00 बजे तक होगा। यह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (सं०) के विवेक पर छोड़ा जाता है कि मतगणना यथास्थिति दिनांक 18.08.2012 (शनिवार) को मतदान समाप्ति की पश्चात् उसी दिन सुविधानुसार अपराह्न 4-5 बजे से शुरू किया जाय या दूसरे दिन दिनांक 19.08.2012 (रविवार) को सुबह 8:00 बजे से शुरू की जाय। दिनांक 18.08.2012 को मतगणना कराने पर मतदत्त मतपेटियों को सीधे मतगणना केन्द्र पर लाया जायेगा और कोई वज्रगृह बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु दूसरे दिन अर्थात् 19.08.2012 को मतगणना कराये जाने की स्थिति में वज्रगृह की स्थापना की जायेगी तथा वज्रगृह में मतदत्त मतपेटियों को रखने, वज्रगृह को सील करने तथा दूसरे दिन वज्रगृह को खोलकर मतपेटियों को मतगणना केन्द्र पर ले जाने के समय की सूचना अनिवार्य रूप से सभी अभ्यर्थियों को लिखित रूप में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी।

आदेश से,  
एन0 एस0 माधवन,  
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

### परिशिष्ट-1

#### मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का निर्वाचन, 2012

##### निर्वाचन कार्यक्रम

##### आदापुर मत्स्यजीवी सहयोग समिति के लिए

(i)	निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा प्रपत्र-1 में सूचना का प्रकाशन	-	26.07.2012 (गुरुवार)
(ii)	नामांकन की तिथि	-	09.08.2012 (गुरुवार)
(iii)	संवीक्षा की तिथि	-	11.08.2012 (शनिवार)
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	-	13.08.2012 (सोमवार)
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	-	18.08.2012 (शनिवार)
(vi)	मतगणना	-	18.08.2012 की संध्या/ 19.08.2012 (रविवार)

### परिशिष्ट-2

#### मत्स्यजीवी सहयोग समिति निर्वाचन

##### प्रपत्र-1

##### सूचना का प्रपत्र

जिला ....., प्रखंड.....के मत्स्यजीवी सहयोग समिति .....के अध्यक्ष,  
मंत्री/ कोषाध्यक्ष एवं प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक.....को किया जाना है,

मैं.....निर्वाचन पदाधिकारी एतद द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूँ :-  
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)

##### आम सूचना

(i) निर्वाचित होने वाले व्यक्तियों की संख्या 13 है, जिसका विस्तृत विवरण निम्नवत है -

पद	निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या
1.	2.
अध्यक्ष	1 (अनारक्षित)
मंत्री / कोषाध्यक्ष	1 (अनारक्षित)
प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य	11 (अनारक्षित)

(ii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय.....अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर  
(स्थान का नाम)

सकने की स्थिति में.....को.....पर दाखिल किया जा सकता  
(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) (स्थान का नाम)

है। नामांकन पत्र दिनांक .....11 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है।  
(नामांकन पत्र दाखिला की तिथि)

(iii) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक.....से दिनांक.....  
तक .....बजे से.....बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

(iv) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक.....को.....पर 11 बजे पूर्वाह्न में प्रारंभ होगी।  
(स्थान का नाम)

(v) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक.....को अपराह्न 2 बजे के पूर्व तक .....पर  
(स्थान का नाम)

दाखिल की जा सकती है। अभ्यर्थिता वापसी का तिथि एवं समय के बीत जाने के तुरंत बाद प्रतीक का विधिमान्य रूप से  
नामांकित सभी अभ्यर्थियों को प्राधिकार के निदेश के आलोक में निर्वाचन प्रतीक चिह्न का आवंटन भी किया जायेगा।

(vi) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक.....को.....बजे पूर्वाह्न से.....बजे अपराह्न तक  
होगा।

(vii) मतगणना दिनांक.....को .....बजे से.....पर की जायेगी।  
(स्थान का नाम)

स्थान-

निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

तिथि -

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 362-571+50-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>